


आइए, अपने समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर काम करें

साथ मिलकर, हम COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं और अपने समुदाय की रक्षा कर सकते हैं।



भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें



अन्य लोगों से 1.5 मीटर दूर रहें



अपने हाथों को बार-बार धोएँ



जब आपको खाँसी या छींक आए तो अपने मुँह को ढक लें



आपकी आयु और स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुसार COVID-19 के टीके की जितनी खुराकों की सिफारिश की गई है उतनी खुराकें लगवा लें



यदि आप अस्वस्थ महसूस करें तो घर पर ही रहें



अधिक जानकारी के लिए, नेशनल कोरोनावायरस सहायता लाइन (National Coronavirus Helpline) को 1800 020 080 पर फोन करें। दुभाषिया सेवाओं के लिए 8 दबाएँ।

health.gov.au/covid19-translated